## PANKAJ PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LTD

Regd. Off.:314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 (CIN: L65990DL1982PLC256291)

Website: www.pptinvestment.in

E-mail: infopptinvestment@gmail.com

Ph.: 011-42804171, 9891442777

Date: June 30, 2021

To Manager- Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip Code: 506122

Reg.: Publication of Audited Financial Results for the quarter & financial year ended March 31, 2021 in Newspaper pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company has published extract of statement of Audited Financial Results of the Company for the quarter & financial year ended March 31, 2021 which have been considered, approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on June 29, 2021

The said Financial Results have been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on June 30, 2021, scan copy of which is attached.

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information & records.

Thanking You,

For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited

Kanika Arora Company Secretary Place: New Delhi

## FINANCIAL EXPRESS

TAY	P.C. M. A. P. C.			1	
1.	Total income from operations (Net)	291.46	201.92	858.37	916.51
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(192.27)	(162.46)	(431.78)	(835.72)
3.	NetProfit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(192.27)	(941.77)	(431.78)	(1348.32)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(203.83)	(963.09)	(648.31)	(1179.90)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(155.29)	(1074.69)	(570.71)	(1076.25)
6.	Equity Share Capital	63.62	63.10	63.62	63.10
7.	Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			757.33	1436.29
8.	Earnings Per Share (of Re. 1/-each) (for continuing and discontinued operations)  1. Basic: 2. Diluted:	(3.23) (3.20)	(15.26) (15.02)	(10.26) (10.18)	(17.90) (17.62)
(B)	Key numbers of Standalone Financial Results			Aleman i	1 25
a.	Total income from operations(net)		4.28		4.44
b.	Net Profit/(Loss) Before Tax	(4.06)	1.26	(16.18)	(344.05)
C.	Net Profit/(Loss) after Tax	2.82	1.26	(8.17)	(320.13)

ACTURING CO LTD

1PLC033462

Notes: 1. The Standaione and Consolidated Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on June 28,2021.

2. Previous period's figures have been regrouped nearranged wherevernecessary.

3. Above is an extract of the detailed/full format of Audited Quarterly and Annual Financial Results (Standaione & Consolidated) filled with the Stock Exchanges under Reg. 33 of the SERI (LOPR) Regulations, 2015. Full format of the said Audited Quarterly and Annual Financial Results alongwith reservation/qualification expressed by statutory auditors and explanation of the Company on the same are available on the websites & BSE & NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at www.sintexplastics.com.

4.# Exceptional and of Extraordinary items adjusted in the Statement of P&LAccountin accordance with IndAS Rules.

For SINTEX PLASTICS TECHNOLOGY LIMMED

AMIT D. PATEL, CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

## PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65990DL1982PLC256294
Regd. Office: 314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, RG Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 Website: www.pptinvestment.in, Email: infopptinvestment@gmail.com, Phone - 011-42804171, 9891442777

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER
AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

AND FINANCIAL TEAR ENDED STOT MARCH, 2021 (132 III dailing)							
S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year ended		
		31-03-21 (Audited)	31-Dec-20 (Un-Audited)	31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	190.78	109.37	218.02	992.95	419.40	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	-70.94	19.24	(16.44)	10.35	(17.14)	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(53.08)	14.39	(18.79)	(7.57)	(19.49)	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)] and other Comprehensive Income (after tax)]	(53.08)	14.39	(18.79)	(7.57)	(19.49)	
5	Paid-Up Equity Share Capital	40	40.00	40.00	40.00	40.00	
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	2,505.63	2,505.63	2,725.12	2,505.63	2,725.12	
7	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	imen s	emina .		1		
	Basic:	-13.27	3.60	(4.70)	(1.89)	(4.87)	
	Diluted:	-13.27	3.60	(4.70)	(1.89)	(4.87)	

020

ed)

.54

.41

.95

.04

.85

.57 .57

tion

d on

with

33 of

ITED

te:

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Direcctors in their meeting held on 29 June, 2021 and the Statutory Auditors of the Company have audited the financial results for the year ended on 31st March, 2021. An unmodified opinion has been issued and the same is being filled with the stock exchange along with the above results. The above results have been prepared in compliance with the recognition and measurement principles of the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment) Rules, 2016 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting standards and policies to the extert analysis he.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 issued by SEBI vide notification dated 25th May, 2016, we hereby declare that the above financial results are not qualified by the Statutory Auditors of the Company.

Figures for the previous period have been regrouped wherever considered necessary so as to conform to the

classification of the current period.

The figures for the quarter ended on 31st March, 2021 and 31st March, 2020 are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published year-to-date figures upto the quarter ended on 31st December, 2020 and 31st December, 2019 respectively, which were subject to limited review. The format for above results as prescribed in SEBI's circular CIR/SFD/CMS/15/2015 dated 30th November, 2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 5th July, 2016, Ind AS and Schedule III (Division-III) to the companies Act, 2013 applicable to companies that are required to comply with Ind AS. India is corrently witnessing the second wave of COVID-19 pandemic with significant increase in the number of infected cases. The resultant lockdowns are less restrictive for economic activity and are concentrated in the most-hit states The Company's robust IT infrastructure and digital communication technology enables its workforce to work securely through remote technology ensuring business continuity. The Company has not experienced any significant impact on its liquidity position due to the sufficiency of working capital. The Company pointnues to be well geared to meet its funding needs. It holds sufficient liquidity as well as adequate undrawn lines of credits if needed from various banks. The Company believes that with the pickup in vaccingation programme infundia, the business and commercial activity is poised for resurgence, leading to increase in power demand and generation. In view of the above, the Management believes that there will not be significant impact of this outbreak in continuing its business operations, in maintaining its financial position and in its ability to continue as a going concern. The Company shall also continue to closely moritor any material changes arising of future economic conditions and potential impact on its business operations, in maintaining its financial position and in its ability to co

For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited

Vinod Kumar Bansal Managing Director DIN: 00243709

growth of the automobile industry and what is the way forward for fast tracking and fast growth of e-vehicles," the heavy industries & public enterprises minister said while inaugurating the Indore facility.

## Rawat visits forward posts along LAC with China

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 29

CHIEF OF DEFENCE Staff Gen Bipin Rawat on Tuesday visited a number of forward locations along the Line of Actual Control (LAC) with China around the Himachal Pradesh sector to take stock of India's military preparedness in the region.

Gen Rawat exhorted troops to remain steadfast in their task of defending the territorial integrity of the country.

His day-long visit to the Sumdoh sector along the LAC came amid the continued military standoff between Indian and Chinese militaries in several friction points in eastern Ladakh.

"General Bipin Rawat, #CDS interacted with the troops, complimented them for their high morale & exhorted them to remain steadfast in their task of defending the territorial integrity of the nation with the same zeal and fervour," the Army said. It said the Chief of Defence Staff was briefed about the ground situation by local commanders.

"General Bipin Rawat, **#CDS** visited forward areas of Central Sector along LAC and was briefed by the local commanders on the operational situation," the Army said.

India and China were locked in a military standoff at multiple friction points in eastern Ladakh since early May last year. The two sides completed withdrawal of troops and weapons from the North and South banks of Pangong lake in February.

Date: June 29, 2021 Place: New Delhi

New Delhi

.35

(1) 11)

3th

site

ctor 88)

N, INDIA

apital data)

responding

ar Ended

1/03/2020

182.72

796.06)

577.00)

578.98)

(572.26)

1,127.00

2,530.56)

(5.08)

(5.08)

tion 33 of the

e available on

f Directors of

LIMITED

ECTOR 5

om)

VA

स्थान : नई दिल्ल

तिथि

ऑकड़ों के मध्य सन्तुलकारी आंकड़े हैं। साथ ही तीसरी दिमाही के अन्त तक के आंकड़ों की केवल समीखा की गयी थी और ये लेखापरीक्षा के अध्यर्धान नहीं थे। 4. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेकाएँ) विनियम, 2015 के बिनियम 33 के सन्दर्भ में उपर्युक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक तथा तीएफओं से प्राप्त प्रमाणपत्र निदेशक मण्डल के समक्ष रखे गये हैं।

अभागपत्र ।पदराक मण्डल क समक्ष रख गण रू। 5. कम्पनी ने सम्भावित प्रभावों पर विचार किया है जो कोविड 19 महामारी के कारण सम्मत्ति की वाहक राशि, संबन्ध तथा उपकरण, इन्येंट्री, प्राप्तियों तथा अन्य चालू आस्तियों पर पड सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सम्भावित भावी अनिश्चितताओं से सम्बन्धित स्थितियों में प्रवन्धन ने इन वितीय परिणामों के अनुमोदन तक कम्मनी के प्रत्यापित भावी कार्य निष्यादन पर आन्तरिक तथा बाह्य खोतों का उपयोग किया है। प्रवन्धन ने अनुमानों का उपयोग करके संवेदनशीलता विश्लेषण किया है और भाषी आर्थिक रहाओं के वर्तमान सुचकों के आधार पर आशा हैं। कि इन अस्तियों की बाइक राशि की बसूनी हो जायेगी और न्यूनतन अगले 12 ावरतपण किया है जार नावा आयंक दशाजा के बतमान सूचका के जायार पर जारा हुए कर ने जाराया का पाइक सारा का बचूता है जानमा जार नूनिक जारा 12 साह के लिए व्यावसायिक प्रचालनों के बित्त पोषण हेतु पर्यात तरलात उपलब्ध होगी। महामारी की अनिश्चितताओं के कारण मंबिच्य में कम्पनी की आस्तियों पर अन्तिम प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि पर किये गये आकलन से मिन्न हो सकते हैं और कम्पनी भावी आर्थिक दशाओं में किसी तारिवक परिवर्तन की गहराई

6. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखाउँक्षित विचीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा की गयी है और 29 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मेंडल द्वारा अनुमेदित की गयी है. 7. गत अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधिन के समरूप पुनर्समूहीकृत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

राजीव बाली प्रबंध निदेशक

पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L65990DL1982PLC256291 पंजीकृत कार्यालय : 314, तीसरी मंजिल, सामने प्लॉट सं. 39, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 वेबसाइट : www.pptinvestment.in, ई-मेल : infopptinvestment@gmail.com, दूरभाव : 011-42804171, 9891442777 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वितीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
<b>京</b> 方. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		31-03-21 ( लेखापरीक्षित )	31 दिस. 20 (अलेखापरीक्षित)	. 31 मार्च, 20 (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 21 (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 20 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	190.78	109.37	218.02	992.95	419.40
2	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	-70.94	19.24	(16.44)	10.35	(17.14)
3	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	(53.08)	14.39	(18.79)	(7.57)	(19.49)
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]		14.39	(18.79)	(7.67)	(19.49)
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	40	40.00	40.00 .	40.00	40.00
6	आरिक्षतियां (तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मृल्यांकन आरिक्षतियों को छोड़कर)	2,505.63	2.505.63	2,725.12	2,505.63	2,725.12
7	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के) बेसिक : डाइल्युटेड :	-13.27 -13.27	3.60 3.60	(4.70) (4.70)	(1.89). (1.89)	(4.87) (4.87)

तिथ्वि : 29 जून, 2021 स्थान : नई दिल्ली

... 1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमिटी द्वारा की गयी है और 29 जून, 2021 को आयोजित उनके बैठक में निदेशक मंडल हारा अनुमोदि ठपपुष्ता विचार अस्ताना का तत्ताका जाविक कार्या वा पार कार्या के साम्यं, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों की समीक्षा की है। एवं अभिलेखित किया गया है और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों को साथ स्टॉक एक्सचेंज में द्राखिल किया जा रहा हैं। एक असंशोधित विचार जारी किया गया है और इसे उपर्युक्त परिणामों के साथ स्टॉक एक्सचेंज में द्राखिल किया जा रहा हैं।

2. उपर्युक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन) नियम, 2016 हारा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) की मान्यता तथा मापन सिद्धान्तों एवं प्रयोज्य सीमा तक अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन प्रथाओं एवं नीतियों के अनुपालन में तैयार किये गये हैं।

सेबी हारा अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2016 हारा जारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016 के अनुसार हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्वालिफाइड नहीं हैं।

वर्तमान अवधि के वर्गीकरण को सुनिश्चित करते के लिए जहां आवश्यक समझा गया वहां गत अवधि के आंकड़ों को पुनर्सगृहीकृत किया गया है।

5. 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित ऑकड़ों तथा क्रमशः 31 दिसम्बर, 2020 एवं 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तक वर्ष तक प्रकाशित अलेखापरीक्षित आँकड़ों के मध्य सन्तुलकारी आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा अध्यधीन थे।

. उपर्युक्त परिणामों का प्रारूप जैसा कि सेबी परिपत्र CIR/SFD/CMS/15/2015 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में निर्धारित है, को इंड एएस के लन में बांछित कम्पनियों हेतु प्रयोज्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस अनुसूची III (हिबीजन-II) एवं सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 की वांछनीयताओं के अनुपालन में संशोधित किया गया है।

2016 का बाधनायताजा क अनुभारत म संशाधत किया गया है। भारत में संक्रमित मामलों को संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लंडर का प्रभाव देखा जा रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधि के लिए कम प्रतिबन्धकारी हैं और अधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित हैं। कम्पनी का जीवन्त आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा डिजिटल कम्पुनिकेशन तकनीक व्यवसाय की निस्तारता को बरकरार रखते हुए रिमोट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कार्यवल को पुरक्षित कार्य कर्ज में सक्षम करता है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण कंम्पनी को इसकी तरलता स्थिति पर किसी सार्थक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। कम्पनी ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके पास पर्याप्त तरलता तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न बैंकों से लेने योग्य अनाहरित राशि उपलब्ध है। कम्पनी का विश्वास है कि पारत में टीकाकरण की गति में वृद्धि होने के साथ व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियाँ जनाहरत तार अपलब्ध है। कम्पना का बिरवात है कि भारत न वकाकारण का गात ने बुख होते के ताव जावतात्वक तथा जातान्वक गातवाविक सुधार की ओर अग्रसर होंगी, जिससे कर्जा की मांग तथा उत्पादन में चुढ़ि होगी। उपर्युक्त के आलोक में प्रवन्यन का विश्वास है कि इस महामारी का अपने व्यवसाय के संचालन की जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति बनाये रखने तथा जारी कंसन के रूप में निरन्तर की क्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम्पनी भावी आर्थिक स्थितियों तथा अपने व्यवसाय पर इसके सम्भावित प्रभाव से होने वाले तात्विक परिवर्तनों पर निकटता से निगरानी भी जारी रखेगी

कृते पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्बेस्टमेंट लिमिटेड

विनोद कुमार बंसल प्रबन्ध निदेशव डीआईएन : 00243709

S/o Late Sh. Budh Masih R/o 24-C, Janyug Apartments, Sector-14 Extn., Rohini, Delhi

Mereas Smt. Manorma Masih D/o Late Sh. Daniel Budh Masih W/o Sh. Dennis David, R/o 24-C, Janyug Apartments, Sector-14. Rohini, Delhi-110085 has filed a petition under Section 278/278 of the Indian Succession Act, 1925 for the grant of Probate/Letters of Administration of last-aad final handwritten Will dated 08-05-2021executed by Sh. Daniel Budh Masih, deceased.

2021 executed by Sh. Daniel Budh Masih, deceased.
And whereas the aforesaid case is fixed for hearing on 30-07-2021 at 11.00 A.M. before the Joint Registrar (Judicial) of this Hon ble Court. This citation is issued, in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the properties of the said deceased to come to this Court, file objections, if any & take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Probate/Letters of Administration.

Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the order dated 31-05-2021.

Sd/

(Seal)

Deputy Registrar For REGISTRAR GENERAL

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में और

गणादीप सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U52100DL2010PTC303530)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः ई-165, मस्जिद मोड, ग्रेंटर कैलाश, भाग-III, नई दिल्ली — 110048 में हैं, के मामले में

...आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए बुधवार, 23 जून 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

ई—165, मस्जिद मोड़, ग्रेटर कैलाश, भाग—Ⅲ, नर्ड दिल्ली - 110048.

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से गणादीप सेल्स प्राइवेट लिमिटेड इस्ता / सतीश चंद अग्रवाल

दिनांक : 29.06.2021 स्थान: नई दिल्ली

(निदेशक) डीआईएनः 06714209

नर्ड दिल्ली

(ख) डाइल्यूटेड :

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बॉम्ड

कम्पनी, पंजीकृत पता 501, सैल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025 तथा मुख्य कार्यालय 6ठी मंजिल, टॉ 126, नीएडा-201304 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारुरी/पक्षों से कथित माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिर के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी।